

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 1975/अग्रहायण 5, 1897
No. 231] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 1975/AGRAHAYANA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE
IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th November, 1975

SUBJECT.—Import Policy for Registered Exporters for the period April 1975—March 1976
(Amendment)

No. 121-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book Volume II) for the period April 1975—March 1976 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC(PN)/75 dated the 7th April, 1975.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below :—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
1	2	3
19.	Section I Part 'B' Para 42.	The following Proviso may be added after the existing sub-para (g) :— “Provided further that the minimum value limit of Rs. 1 crore as the base year's export for the purpose of the provisions of this sub-para will be Rs. 25 lakhs in the case of manufacturer exporters and manufacturing Export Houses in the Small Scale Sector”

1	2	3
184	Group 'K' General Notes Column 5.	The following shall be added at the end of remark No. (1):— "Nomination may also be made in favour of a wool comber, who would ensure that wool tops manufactured from the wool received by him are delivered only to a recognised spinner holding a permit issued by the Textile Commissioner."
186	Group 'L' General Notes Column 5.	The following may be added at the end of remark No. (2):— "Nomination may also be made in favour of a wool comber, who would ensure that wool tops manufactured from the wool received by him are delivered only to a recognised spinner holding a permit issued by the Textile Commissioner."

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

विषय.—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन)।

सं० 121-आई०टी०से० (पी० एन०)/75.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 21-आई०टी०से० (पी० एन०)/75, दिनांक 7 अप्रैल, 1975 के अन्तर्गत अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए प्रकाशित आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक बा० 2) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं:—

रेडबुक (बा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
19.	खंड—1 भाग 'बी' पैरा 42	वर्तमान उप-पैरा (5) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए:— "आगे यह भी शर्त है कि इस उप-पैरा के उपबंधों के उद्देश्य के लिए आधार वर्ष के निर्यातों के रूप में 1 करोड़ रुपये की न्यूनतम मूल्य सीमा लघु पैमाना क्षेत्र के विनिर्माता निर्यातकों और विनिर्माण करने वाले निर्यात सदनों के मामले में 5 लाख रुपये होगी।"

1	2	3
184.	<u>ग्रुप 'क'</u> <u>सामान्य टिप्पणियाँ,</u> <u>कालिम 5</u>	अभ्युक्ति संख्या (1) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— “ऊन साफ करने वाले के नाम में भी नामजदगी की जा सकती है जो इसका मुनिश्चय करेगा कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए ऊन से विनिर्मित ऊन टाप्स वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए परमिट रखने वाले को अभिज्ञात कताई करने वाले को वितरित किए गए हैं।”
186.	<u>ग्रुप "एल"</u> <u>सामान्य टिप्पणी</u> <u>कालिम 5</u>	अभ्युक्ति संख्या (2) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— “ऊन साफ करने वाले के नाम में भी नामजदगी की जा सकती है जो इसका मुनिश्चय करेगा कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए ऊन से विनिर्मित ऊन टाप्स वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी किए गए परमिट रखने वाले को अभिज्ञात कताई करने वाले को वितरित किए गए हैं।”

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

